

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ University of Lucknow, Lucknow

Press-Note 17 April 2020

A webinar is being organized under the aegis of Prof. Poonam Tandon, Dean Students' Welfare (DSW) on coming Sunday at 11 am onwards as a part of initiative by University of Lucknow to spread awareness among the students and teachers of the University about various aspects of Corona virus Pandemic. The webinar will start with introductory remarks of Honorable Vice Chancellor, Prof. Alok Kumar Rai. This will be followed by a briefing by DSW regarding objectives of the webinar. First lecture will be taken by Prof. Sudhir Mehrotra, Head, Department of Biochemistry on various aspects of Corona virus pandemic such as Modes of Transmission, Biology of the virus, World wide status of the pandemic, epicenters etc. This will be followed by A lecture by Prof. Monisha Banerjee of Zoology department. She will give detailed insights into the Molecular Biology and Genetics of Corona virus infection. The last lecture will be delivered by Dr. Alka Mishra of Mathematics and Astronomy department who will speak on the Challenges being faced by Human race in combating Corona crisis. This webinar will be a II part series.

प्रेस-नोट

लखनऊ विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता, छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन के तत्वावधान में आगामी रविवार दिनांक 19 अप्रैल 2020 को एक वेबीनार का आयोजन किया जा रहा है. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संदर्भ में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए इस वेबीनार का आयोजन किया जा रहा है. प्रारंभ में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर आलोक कुमार राय छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करेंगे तथा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में जानकारी देंगे. तत्पश्चात अधिष्ठाता, छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन इस वेबीनार आयोजन के उद्देश्य के बारे में बतायेंगी. इसके पश्चात विश्वविद्यालय के जीव-रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा कोरोना वायरस के विषय में विस्तृत व्याख्यान देंगे व इस वायरस के मनुष्यों में

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ University of Lucknow, Lucknow

संक्रमण की विधियां तथा वायरस की बायोलॉजी के बारे में के बचाव एवं रोकथाम के उपाय तथा विश्व में वर्तमान समय में इस वायरस से होने वाले संक्रमण एवं मौतों के बारे में आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे. इसके बाद विश्वविद्यालय के जंतुविज्ञान विभाग की प्रोफेसर मोनीषा बनर्जी कोरोना वायरस की मोलिकूलर बायोलॉजी तथा संक्रमण की जेनेटिक्स के संबंध में अत्यंत उपयोगी जानकारी देंगी. अंत में मैथमेटिक्स एवं एस्ट्रोनॉमी विभाग की डॉ अलका मिश्रा वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के द्वारा मनुष्य में कौन-कौन से चैलेंजेज हैं, इस पर प्रकाश डालेंगी.